



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन 1931 (श0)
(सं0 पटना 545) पटना, शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2009

सं0 1/सी0एल0-1011/2006(पार्ट-II)श्र0सं0—2081

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

26 जून 2009

विषय—बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना के संबंध में।

1. बाल श्रम सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। कामकाजी बच्चे जिसमें बाल श्रमिक भी शामिल हैं, मुख्यतः गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा का परिणाम हैं। इस भयंकर समस्या का उन्मूलन करने हेतु आवश्यक है कि समाज में गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा को कम करने के समेकित प्रयास किए जाय, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए तथा विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास की कारगर व्यवस्था की जाए।

2. अतएव, राज्य सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु एक समेकित राज्य कार्य योजना संलग्न परिशिष्ट-I(हिन्दी)/परिशिष्ट-II(अंग्रेजी) के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को (दोनों परिशिष्ट सहित) बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मद्रासालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 545-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>